



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2019/वैशाख 25, 1941

No. 303]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2019/VAISAKHA 25, 1941

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

**सा.का.नि. 363(अ).**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेलवे बोर्ड, निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 1991, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) संयुक्त निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 1996, और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (राजभाषा निदेशालय में राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के राजभाषा निदेशालय में समूह 'क' के विभिन्न पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), (राजभाषा में समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.निदेशक (राजभाषा)</b>	1 (2019)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय रेल सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-13 (₹123100-215900)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सम्मिश्र पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) एवं प्रोन्नति)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति की जाएगी	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
सम्मिश्र पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) एवं प्रोन्नति) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा कानूनी अथवा स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी। <b>क</b> (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 ₹) में स्तर-12 अथवा उसके समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 5 (पांच) वर्ष की सेवा की हो; तथा	लागू नहीं होता	हर बार पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

**निम्नलिखित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हो:****अनिवार्य:**

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हो और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी एवं अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हो अथवा दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो

**अनुभव:**

(II) केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग या अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी अथवा विलोमतः अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक साहित्य को वरीयता दी जाएगी; अथवा

केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का दस वर्ष का अनुभव हो

**वांछनीय:**

संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर अध्ययन किया हो

**टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स (78800-209200) में स्तर-12 में ऐसे विभागीय संयुक्त निदेशक (राजभाषा), जिसने नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिसके पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो, पर भी अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा. यदि विभागीय अधिकारी का नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो उक्त पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

**टिप्पण 2:** फीडर कैडर के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

<b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा).</b>	1 (2019)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	भारतीय रेल सेवा समूह "क" राजपत्रित अनु सचिवीय	स्तर -12 (₹78800-209200)	चयन.	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (₹ 67700-208700) में स्तर 11 में ऐसे उप निदेशक (राजभाषा)/रेलवे बोर्ड जिसने नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 5(पांच) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजभाषा के सभी पहलुओं में छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>(i) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड —सदस्य; और</p> <p>(iii) सचिव, रेलवे बोर्ड —सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3. उप निदेशक (राजभाषा)</b>	5 (2019)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	भारतीय रेल सेवा समूह "क" राजपत्रित अनु-सचिवीय	स्तर-11 (₹ 67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (₹ 56100-177500) में स्तर 10 में ऐसे सहायक निदेशक (राजभाषा)/रेलवे बोर्ड जिसने पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो एवं रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजभाषा के सभी पहलुओं में छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद के पुनः पदनाम और अपग्रेडेशन से पहले नियमित आधार पर वेतन स्तर 8 (₹ 47600-151100) में रेलवे बोर्ड राजभाषा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) अथवा सहायक हिंदी अधिकारी/संपर्क अधिकारी (राजभाषा) के पदों वाले वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा की गई सेवा की गणना उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी. ये पदधारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक निदेशक (राजभाषा) की ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर अथवा वेतन स्तर 8 (₹ 47600-151100) में रेलवे बोर्ड के राजभाषा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी (हिंदी)/सहायक हिंदी अधिकारी/संपर्क अधिकारी (राजभाषा) के पूर्ववर्ती ग्रेड (ग्रेडों) में नियमित आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से आठ वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे, जो भी पहले हो।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड -अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, रेलवे बोर्ड -सदस्य; और</p> <p>(iii) कार्यपालक निदेशक स्था. (आरक्षण), रेलवे बोर्ड -सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4. सहायक निदेशक (राजभाषा)</b>	11 (2019)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय रेल सेवा समूह "क" राजपत्रित अनु-सचिवीय।	स्तर -10 (₹ 56100-177500)	चयन	<p>पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं.</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए पांच वर्ष तक के लिए छूट)</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,</p>

					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहुल एवं स्पीति जिले तथा पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं)
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो;</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो;</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा माध्यम हो;</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हो और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा माध्यम हो;</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी एवं अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हो अथवा दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो;</p>	<p>आयु: नहीं.</p> <p>शैक्षिक अर्हता: नहीं</p>	<p>एक वर्ष</p>	<p>75% प्रोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> रेलवे बोर्ड के राजभाषा संवर्ग का वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (₹ 44900-142400) में स्तर-7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजभाषा के सभी पहलुओं में छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

<p>(II) केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग या अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी अथवा विलोमतः अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव हो; अथवा</p> <p>केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ाने अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो.</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर अध्ययन किया हो।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हक है तो अर्हता में संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय से छूट दी जा सकती है, जिसके लिए लिखित में कारण रिकार्ड किए जाएं।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>				
--	--	--	--	--

(12)	(13)
<p>(क) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, रेलवे बोर्ड -सदस्य; और</p> <p>(iii) कार्यपालक निदेशक स्था.(आरक्षण), रेलवे बोर्ड -सदस्य.</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है.</p>
<p>(ख) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में जिसमें होंगे:</p> <p>(i) सचिव, रेलवे बोर्ड -अध्यक्ष;</p> <p>(ii) कार्यपालक निदेशक स्था.(आरक्षण), रेलवे बोर्ड . -सदस्य; और</p> <p>(iii) निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड -सदस्य.</p>	

[फा. सं. ईआरबी-I/2015/11/1]

एस. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (राजपत्रित)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

(RAILWAY BOARD)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2019

**G.S.R. 363(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Railway Board, Nideshak (Raj Bhasha) Recruitment Rules, 1991, the Ministry of Railways (Railway Board) Joint Director (Official Language) Recruitment Rules, 1996, and the Ministry of Railways (Railway Board) (Gazetted posts in the Official Language Directorate) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various Group 'A' posts in the Official Language Directorate of Ministry of Railways (Railway Board), namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Railways (Railway Board), (Group 'A' posts in Official Language), Recruitment Rules, 2019.  
(2) These shall come into force on the date of their publication in the Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.
- Disqualification.**— No person,—  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to these posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public



Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Director (Official Language)</b>	1 (2019)* *Subject to variation dependant on workload	Indian Railways Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-13 (₹ 123100-215900)	Not Applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method (deputation (Including Short-term Contract) plus promotion)

In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Composite method (deputation (Including Short-term Contract) plus promotion)</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations.</p> <p><b>A.(I)</b> Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(II) With five years service in Level-12 in the pay matrix (₹ 78800-209200) or equivalent, rendered after appointment thereto on regular basis in the parent Cadre or Department; and</p> <p><b>Possessing the qualifications and experience as given below:</b></p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(I) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium</p>	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion

<p>of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.</p> <p><b>Experience:</b></p> <p>(II) Ten years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and Translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions; or</p> <p>Ten years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth schedule of the Constitution at tenth level from a recognised Board.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental Joint Director (Official Language) with five years' service rendered in Level-12 in the pay matrix (₹ 78800-209200), after appointment thereto on regular basis and having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along-with outsiders. If the departmental officer is selected for appointment, the said post shall be treated to have been filled up by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2. Joint Director (Official Language)</b>	1 (2019)* *Subject to variation dependant on workload	Indian Railways Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-12 (₹ 78800-209200)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p><b>Promotion:</b> Deputy Director (Official Language), Railway Board with five years' service rendered in Level 11 in the pay matrix (₹ 67700-208700), after appointment thereto on regular basis and successful completion of training of six weeks in all aspects of Official Language as prescribed by the Ministry of Railways.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>(I) Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :</p> <p>(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;</p> <p>(ii) Member Staff, Railway Board. -Member; and</p> <p>(iii) Secretary, Railway Board -Member.</p>	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3. Deputy Director (Official Language)</b>	5 (2019)* *Subject to variation dependant on workload	Indian Railways Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-11 (₹ 67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p><b>Promotion:</b> Assistant Director (Official Language), Railway Board with five years' regular service in Level-10 in the Pay Matrix (₹ 56100-177500) and successful completion of training of six weeks in all aspects of Official Language as prescribed by the Ministry of Railways.</p> <p><b>Note 1:</b> The regular service rendered by the existing incumbents holding the posts of Section Officer (Hindi) or Assistant Hindi Officer/Liaison Officer (Official Language) of the Official Language Cadre of Railway</p>

			<p>Board in the Pay Level-8 (₹ 47600-151100) on regular basis on the date of notification of these Recruitment Rules, prior to re-designation and up-gradation of the post as Assistant Director (Official Language) in Level-10 of the pay matrix, shall also be counted as qualifying service for promotion to the post of Deputy Director (Official Language). These incumbents shall become eligible for promotion to the post of Deputy Director (Official Language) with five years' service rendered in the grade of Assistant Director(Official Language) in Level-10 of the Pay matrix after appointment thereto on a regular basis or eight years of qualifying service counted from their initial appointment on regular basis in the erstwhile grade of Section Officer (Hindi) or Assistant Hindi Officer or Liaison Officer (Official Language) of the Official Language Cadre of Railway Board in the Pay Level 8 (₹ 47600-151100), whichever is earlier.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>(I) Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :</p> <p>(i) Member Staff, Railway Board -Chairman;</p> <p>(ii) Secretary, Railway Board -Member; and</p> <p>(iii) Executive Director Establishment (Reservation), Railway Board -Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4. Assistant Director (Official Language)</b>	11 (2019)* *Subject to variation dependant on workload	Indian Railways Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-10 (₹ 56100-177500)	Selection	<p>Not exceeding thirty five years</p> <p><b>Note 1:</b> (Relaxable for government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p><b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(I) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; <b>or</b></p>	<p>Age: No.</p> <p>Educational Qualifications: No.</p>	One year	75% by promotion and 25% by direct recruitment

<p>Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; <b>or</b></p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; <b>or</b></p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; <b>or</b></p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;</p> <p>(II) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and Translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions; or</p> <p>Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Studied one of the languages other than Hindi included in the eight schedule of the Constitution at tenth level from a recognized Board.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Senior Translation Officer of Official Language Cadre of Railway Board with three years' regular service in Level 7 in the Pay Matrix (₹ 44900-142400) and successful completion of training of six weeks in all aspects of Official Language as prescribed by the Ministry of Railways.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short</p>	<p>(A) Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :</p> <p>(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;</p> <p>(ii) Secretary, Railway Board -Member; and</p> <p>(iii) Executive Director Establishment (Reservation), Railway Board -Member.</p> <p>(B) Departmental Confirmation Committee</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary.</p>

of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(For considering confirmation) consisting of : (i) Secretary, Railway Board -Chairman; (ii) Executive Director Establishment (Reservation), Railway Board -Member; and (iii) Director (Official Language), Railway Board -Member.	
---	--	--

[F. No. ERB-I/2015/11/1]

S. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Gazetted)